

No. IITD/IRD/RP03790G/212219

Dated: 03/02/2020

Advertisement No.: IITD/IRD/034/2020

Candidates of Indian nationality are invited to appear for the **Walk-in test / interview** for project appointments under the following project. Appointment shall be on contractual basis on consolidated pay renewable yearly or upto the duration of the project whichever is earlier subject to satisfactory performance of the incumbent and availability of funds. निम्नलिखित परियोजना के तहत परियोजना की नियुक्तियों के लिए भारतीय राष्ट्रियता के उम्मीदवारों को वॉक-इन परीक्षा/साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अपॉइंटमेंट वार्षिक आधार पर या परियोजना की अवधि तक समेकित वेतन पर संविदात्मक आधार पर जो भी पहले हो, होगा।

Title of the Project	P53 in Regulation of Epithelial-Mesenchymal Transition in Breast Cancer: Role of Micro-RNA (RP03790G)	
Funding Agency	International Division, Department of Science & Technology	
Name of the Project Investigator	Prof. (Ms.) Ritu Kulshrestha	
Deptt./Centre	Department of Biochemical Engineering & Biotechnology (DBEB)	
Duration of the Project	Upto:20/08/2022	
Post (s)	Consolidated Pay-slab	Qualifications
Research Associate (1)	Rs.47,000/-p.m. plus HRA @ 24%	EQ: Ph.D. in any field of Life Sciences with research experience in cancer and microRNA biology. The candidate should have at least one research paper as first author in Science citation (SCI) Journal. Candidates must have their thesis submitted at the time of joining. Essential work experience: mammalian Cell Culture, Molecular Biology, Protein Biochemistry, FACS analyses. Desirable Experience: RNA seq data analyses, TCGA data analyses, Bioinformatics. Candidates without these minimum qualifications need not appear for walk-in-interview. Age: Not more than 35 years as on closing date of advertisement.
Walk In Test / Date of Interview	Time of Interview	Venue
27/02/2020	03.00 p.m.	Room No. 230, Committee room Block-1, Department of Biochemical Engineering and Biotechnology (DBEB), IIT Delhi, Hauz Khas, New Delhi-110016

The candidates who fulfill the above qualifications/experience should appear for the interview. Kindly bring your formal application on Form No. IRD/REC-4, which can be downloaded from IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) through proper channel along with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks of each examination passed, details of work experience and a recent passport size photograph, along with original certificates (both academic & professional) for verification on the date of interview. No candidate, who is already employed at the Institute / IRD shall be interviewed unless his/her application has been duly forwarded by their concerned establishment/sections. 5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा।

In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate **may contact Prof. (Ms.) Ritu Kulshrestha at email id:drritikulshrestha@gmail.com**

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Head of the Deptt./Centres/Units : It is requested that the contents of the above Advt. be brought to the notice of the staff working in your Deptt./Centre/Unit
- Webmaster, IRD : To put advertisement at IITD website.
- Notice Boards
- Advertisement file
- Prof. (Ms.) Ritu Kulshrestha, PI, DBEB
- Dr. Harshita Bhatnagar, RD Coordinator, (R&D) Wing